



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019  
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 11, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9826** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Vijayanagar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Vijayanagar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**

Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Governmen.**

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रारूप "क"

क्र. सं.	वार्ड संख्या	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1.	1	26 मील पर डेयरी से दक्षिण की ओर आगे नाले होते हुये केसरपुरा रोड तक । केसरपुरा रोड से पूर्व की ओर शिवाजी नगर को शामिल करते हुये उत्तर की ओर रमेश शर्मा के मकान तक । रमेश जी व सुरेश जी शर्मा के मकान से उत्तर की ओर इन्द्रा कॉलोनी प्राथमिक स्कूल को शामिल करते हुये रांका के मकान तक । रांका के मकान से छोटी गुर्जरी के मकान तक छोटी गुर्जरी के मकान से उत्तर की ओर महिला स्नानघर से राधादेवी भील से उत्तर की ओर सतकुडिया सडक तक । सतकुडियां सडक से होते हुए नाले को मसूदा नाले के सहारे-सहारे होते हुए 26मील डेयरी तक एवं बीच का सम्पूर्ण हिस्सा ।
2.	2	नेशनल हाईवे पर केसरपुरा रोड से दक्षिण की ओर 27मील चौराहे तक । 27मील चौराहे से पूर्व की ओर प्राज्ञ कॉलेज नारायण स्कूल को शामिल करते हुए रमेश जी कम्पोन्डर के मकान तक । रमेश जी कम्पोन्डर के मकान से उत्तर की ओर स्कूल के मैदान के उत्तरी पूर्वी कोने तक कोने से पश्चिम की ओर भागचनद नाई की कबिन से शामिल करते हुए मोडे जी नोहरे को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर रोड क्रॉस कर खाली प्लॉट से उत्तर की तरफ सुरेश जी प्रजापत के मकान से होते हुये केसरपुरा रोड रामेश्वर जी नदवाडा वाले के खाली प्लॉट तक । रामेश्वर जी नदवाडा वाले के खाली प्लॉट से पश्चिम में केसरपुरा रोड पर गोपाल जी भट्टे को शामिल करते हुए नेशनल हाईवे तक बीच का सम्पूर्ण हिस्सा ।

3.	3	इन्दिरा कॉलोनी में बच्चू गुजराती के मकान से पश्चिम में महावीर रेगर के मकान से होते हुए 60 फीट वाले रोड पर होते हुए पश्चिम में हीरासिंह रावत के मकान से पास खाली प्लॉट तक । खाली प्लॉट से दक्षिण की ओर रमेश रांका के मकान से होते हुए नारायण भांबी के मकान तक । भांबी के मकान से माधू जी कुम्हार के मकान से होते हुए शिवाजी नगर के दक्षिणी - पूर्वी कोने तक । कोने से केसरपुरा रोड के पूर्व की ओर मॉडर्न स्कूल के सामने खाली प्लाट तक । खाली प्लाट के उत्तर में विराट स्टील वाले के मकान से होते हुए खुशी एम्बोड्री पारीक के मकान से होते हुए पूर्व की ओर हरिकृपा भवन होते हुए उत्तर में नवाल के मकान होते हुए मनोहरदास साधू के मकान से उत्तर की ओर बच्चू गुजराती के मकान तक के बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
4.	4	इन्दिरा कॉलोनी में शीतला मन्दिर के पास खाली प्लाट से उत्तर की ओर केदार पहलवान के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर इन्दिरा कॉलोनी के मकानों को शामिल करते हुए इन्द्रगढ की सडक तक । इन्द्रगढ की सडक के दक्षिण की ओर बालू जाट के मकान से होते हुए दक्षिण की ओर रामचरण वैष्णव के मकान तक । रामचरण वैष्णव के मकान से पूर्व की ओर ललिता खटीक (लाली) के मकान से होते हुए भागचन्द चौधरी के मकान से पूर्व की ओर शीतला मन्दिर के पास खाली प्लाट तक के बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
5.	5	मसूदा नाले के पास ईसाईयों के कब्रिस्तान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर नाले के सहारे सहारे इन्द्रगढ की सडक तक । इन्द्रगढ की सडक से दक्षिण की ओर कुमावत की फैक्ट्री होते हुए दाल फैक्ट्री के पीछे दक्षिणी पश्चिमी कोने तक । दक्षिणी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर इण्डस्ट्रीज एरिया के सहारे सहारे बट्टी लाल के मकान के सामने औद्योगिक प्लॉट तक । प्लॉट से दक्षिण की ओर सडक क्रॉस करते हुए बट्टी लाल के मकान से होते हुए पॉवर हाउस के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक । दक्षिणी कोने से पूर्व की ओर पालिका सामुदायिक भवन तक । सामुदायिक भवन से उत्तर की ओर शास्त्री कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र गांधी नगर को शामिल करते हुए बागरियों के मकान से होते हुए ईसाईयो के कब्रिस्तान तक एवं इसके बीच का हिस्सा ।
6.	6	औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में गुडविल स्कूल से प्रारम्भ होकर दक्षिण में रामगोपाल जी के मकान तक । रामगोपाल जी के मकान से पश्चिम में जगदीश जी शर्मा के मकान होते हुए पश्चिम में सत्यनारायण जी शर्मा के आगे खाली प्लाट तक । खाली प्लाट से पश्चिम दक्षिण में वैष्णव सदन तक । वैष्णव सदन से दक्षिण घीसू नायक के मकान तक । घीसू नायक के मकान से पूर्व में शंकर भवन तक । शंकर भवन से उत्तर में रामेश्वर जी शर्मा के मकान तक । रामेश्वर जी शर्मा के मकान के सामने रोड क्रॉस कर पूर्व में कृष्णा वाटिका तक । कृष्णा वाटिका से पूर्व में आरती प्लाईवुड वाले तक आरती प्लाईवुड के मकान से उत्तर में मगनीराम जांगीड कॉलोनी को शामिल करते हुए पोखरना फैक्ट्री के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक । फैक्ट्री के कोने से पूर्व में सिन्धी समाज के नोहरे तक । नोहरे से उत्तर में जयबहादूर जी के मकान होते हुए पूर्व में रोड क्रॉस करते हुए पूर्व में महिपाल सिंह जी राठौड के मकान तक । राठौड जी के मकान से पूर्व की ओर सिन्धी धर्मशाला शामिल करते हुए रामरतन जी चौधरी के मकान तक, चौधरी के मकान से उत्तर की ओर दिनेश जी शर्मा के मकान तक । शर्मा जी के मकान से पश्चिम की ओर पालिका भूखण्डो, गंगा छात्रावास को शामिल करते हुए गुडविल स्कूल तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।

7.	7	प्रकाश कोलोनी में सुशील सांड से प्रारम्भ होकर पश्चिम में धन जी गैरेज, भंवर जी की बंगीची, घीसू जी के खेत से उत्तर में जगदीश जी दरोगा के मकान तक । जगदीश जी दरोगा के मकान से कमलेश जी सुरोलिया के मकान तक । सुरोलिया के मकान से पूर्व की ओर मदन जी खाती के मकान तक । मदन खाती के मकान के उत्तर-पूर्व में रोड क्रॉस कर नरेश पारीक के मकान तक । पारीक के मकान से उत्तर की ओर हरिओम शर्मा के मकान तक । शर्मा के मकान से जैन प्रकाश कोलोनी को शामिल करते हुए गर्ल्स स्कूल का फिल्ड लेते हुए बाबा की मण्डी तक । बाबा की मण्डी से विश्वकर्मा मन्दिर होते हुए सुशील सांड के मकान तक व बीच का हिस्सा शर्मा कोलोनी, विश्वकर्मा कोलोनी, प्रकाश कोलोनी को सम्मिलित करते हुए ।
8.	8	केसरपुरा रोड पर अनिल जी शर्मा सांपला वाले के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण में ललित जी पारीक को शामिल करते हुए रामदेव गुर्जर के मकान के पश्चिमी दक्षिणी कोने होते हुये दक्षिणी पूर्वी कोने तक कोने से मनोहर सिंह जी के मकान को शामिल कर पूर्व में सुभाष विध्या निकेतन स्कूल को शामिल करते हुए गप्फार चाचा के मकान तक चाचा के मकान से उत्तर में कैलाश जी पाराशर के मकान तक पाराशर के मकान से पश्चिम में अनिल जी शर्मा के मकान तक एवं इसके बीच का सम्पूर्ण हिस्सा ।
9.	9	सुभाष स्कूल के सामने नाले के पास नाहर सिंह जी लोढा के खाली प्लॉट से प्रारम्भ होकर दक्षिण में लादू भील के मकान को शामिल करते हुए वैष्णव के मकान तक । वैष्णव के मकान से पूर्व की ओर चौधरी मेडीकल की दुकान तक । चौधरी मेडीकल की दुकान से उत्तर की ओर शारदा जी के मकान तक शारदा जी मकान से पूर्व में रोड क्रॉस कर गणेश क्रॉकरी के नोहरे को शामिल करते हुए ज्योति पब्लिक स्कूल तक स्कूल से दक्षिण में सोहनलाल की लेथ मशीन तक । लेथ मशीन के पास नाले के पश्चिम में पुराने शराब ठेके के उत्तर में होते हुए भंवरसिंह का मकान से होते हुए श्री रामगोपाल टांक के मकान तक । टांक के मकान से पश्चिम में नाले के दक्षिणी साईड होते हुए नाहरसिंह लोढा के प्लॉट तक । लोढा के प्लॉट से दक्षिण में लादू भील के मकान तक व बीच का हिस्सा सम्मिलित करते हुए ।
10.	10	कोपरेटिव स्टोर से प्रारम्भ होकर पूरब की ओर सांड के मकानों को शामिल करते हुए रामश्याम टी स्टॉल तक रामश्याम टी स्टाल से उत्तर की ओर होटल एन. चन्द्रा पैलेस को शामिल करते हुए टेलीफोन एक्सचेंज के उत्तरी पूर्वी कोने तक । एक्सचेंज से पश्चिम की ओर परिहार का मकान व टीना प्लास्टिक की फैक्ट्री तक । टीना प्लास्टिक फैक्ट्री के दक्षिण में कुशवाह वाटिका से होते हुए टीवीएस शोरूम तक । शोरूम से पश्चिम की ओर रोड क्रॉस कर आजाद जी वर्मा के मकान को शामिल करते हुए पुराने शान्ति नर्सिंग होम से राजेन्द्र दाधीच के मकान तक । दाधीच के मकान से सामने पश्चिम में रोड क्रॉस कर राजेश जी तिवाडी के मकान होते हुए आर्य समाज के नोहरे उत्तरी पश्चिमी कोने तक नोहरे से दक्षिण की ओर कॉपरेटिव स्टोर तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
11.	11	गांधी पार्क से प्रारम्भ होकर पूर्व में पीपली चौराहे पर कन्हैयालाल मास्टर की दुकान तक । कन्हैयालाल मास्टर की दुकान से दक्षिण की ओर महावीर अजमेरा के मकान तक । अजमेरा के मकान से पश्चिम में छगन लाल तातेड के मकान तक । तातेड के पश्चिम में रोड क्रॉस कर अभयराज संचेती व राजकीय चिकित्सालय के दक्षिण पूर्वी कोने से पश्चिम में गांधी पार्क तक व बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।

12.	12	कृषि मण्डी रोड पर सिंघवी के नोहरे के पश्चिम की ओर होते हुए नगरपालिका के खाली प्लॉटो को शामिल करते हुए कृषि उपज मण्डी के उत्तरी पूर्वी कोने तक । कोने से दक्षिण में सम्पूर्ण कृषि मण्डी परिसर व क्वार्टरो को शामिल करते हुए मुनीम कॉलोनी में कृषि मण्डी की दीवार के पास पुखराज नोलखा के मकान तक । नोलखा के मकान से पूर्व तरफ रोशन लाल डांगी के मकान तक । डांगी के मकान से उत्तर की तरफ सिंघवी के नोहरे तक व बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
13.	13	पीपली चौराहे पर कुशवाह भवन से दक्षिण की ओर छीतरमल जी जागेटिया के मकान तक । जागेटिया के मकान से पूर्व की ओर साहब शरण आचार्य के मकान को शामिल करते हुए कैलाश जी मालू के मकान तक । कैलाश जी मालू के मकान से उत्तर की ओर शीतला माता के मन्दिर तक । मन्दिर से पश्चिम में प्रकाश जी बम्ब का मकान रोड क्रॉस कर बिरदीचन्द जी पोखरना के मकान से होते हुए उत्तर की ओर दुर्गाजी तेली के मकान तक । तेली के मकान से पश्चिम में कुशवाह भवन तक व बीच का हिस्सा ।
14.	14	पीपली चौराहे पर शिव मन्दिर से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर पाडा चौराहा व गणेश क्रॉकरी से होते हुए सब्जी मण्डी चौराहे पर व्यापारिक एसोसियेशन की प्याउ तक । प्याउ के उत्तर की ओर हरिओम खाती के मकान/दुकान तक । खाती के मकान से पश्चिम में शिव मन्दिर होते हुए विष्णु खाती की दुकान/मकान तक । विष्णु खाती के मकान से रोड क्रॉस कर सागर फैन्सी स्टोर से उत्तर की ओर गौसाई के मकान तक । गौसाई के मकान से पश्चिम में सत्यम् कॉम्प्लेक्स को शामिल करते हुए दक्षिण में गंगाविशन कुमावत के मकान से होते हुए पीपली चौराहे पर शिव मन्दिर तक व बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
15.	15	पोखरना फैक्ट्री के सामने आनन्द सागर शर्मा के मकान से दक्षिण में नाले सहारे जय बस वाले के मकान से होते हुए निहालचन्द बुरड के मकान तक । निहालचन्द बुरड के मकान से पूर्व की ओर राजेश शर्मा (शैफाली गिफ्ट कॉर्नर) के मकान तक । मकान से उत्तर की ओर सथाना बाजार स्कूल होते हुए नाले के पास नोहरे व इसके पश्चिम में रिक्त प्लाट लेते हुए नाले पर बंकटलाल आगीवाल के मकान से उत्तर की ओर गर्ल्स स्कूल के पीछे होते हुए पुरुषोत्तम ओझा के मकान तक । ओझा के मकान से पश्चिम में आनन्द सागर शर्मा के मकान तक व बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
16.	16	पोखरना फैक्ट्री के सामने मदन सिन्धी के मकान से दक्षिण की ओर नत्थूमल जी सिन्धी के मकान तक । सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर दौलत जी सिन्धी के नोहरे तक । नोहरे से रोड क्रॉस कर भागचन्द रांका के मकान होते हुए नाले पर साजनदास सिन्धी के मकान तक । सिन्धी के मकान से पूर्व में परसराम सिन्धी के मकान तक । सिन्धी के मकान से पूर्व में सथाना बाजार रोड क्रॉस कर लोढा जी के नोहरे तक । नोहरे से पूर्व की ओर ज्ञानचन्द नाबेडा के मकान तक । नाबेडा के मकान से उत्तर की ओर धोबी के मकान तक । धोबी के मकान से पूर्व की ओर हनुमान मन्दिर के पास रामावतार शर्मा के मकान तक । शर्मा के मकान से उत्तर की ओर नन्दकिशोर पुरोहित के मकान तक । पुरोहित के मकान से पश्चिम में माताजी के मन्दिर तक । मन्दिर के सामने पश्चिम में रोड क्रॉस कर दीपक मनानी के मकान से होते उत्तर में सत्यनारायण अग्रवाल के मकान तक । अग्रवाल के मकान से पश्चिम में जगदीश जी ओझा के मकान से होते हुए पश्चिम में मदन सिन्धी के मकान तक व बीच का हिस्सा सम्मिलित करते हुए ।

17.	17	सथाना बाजार में पुलिया के पास गोवर्धनलाल टेलर/कन्हैयालाल टेलर के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व में हरिप्रसाद शर्मा के मकान तक । शर्मा के मकान से उत्तर में मंगलचन्द जैन एवं जीनगर के मकान तक । जीनगर के मकान से पूर्व की ओर हनुमान मन्दिर के उत्तरी पूर्वी कोने से नारायण वाटिका के दक्षिणी पूर्वी कोने तक वाटिका के कोने से पश्चिम में डॉक्टर नन्दलाल के मकान तक । नन्दलाल के मकान से दक्षिण की ओर कुमावत के प्लॉट होते हुए आंचलिया के मकान तक । आंचलिया के मकान से पश्चिम की ओर खुबचन्द सिन्धी के मकान से होते हुए महेन्द्र जी तातेड के मकान तक । तातेड के मकान से दक्षिण की ओर पारस जी गेलडा के मकान तक । गेलडा के मकान से पश्चिम की ओर सुरेन्द्र सिंह जैन के मकान होते हुए सथाना बाजार की गली के नुक्कड तक । नुक्कड से उत्तर में रामगोपाल जी छीपा के मकान को शामिल करते हुए गोवर्धन लाल टेलर/कन्हैयालाल टेलर के मकान तक एवं बीच का सम्पूर्ण हिस्सा ।
18.	18	सथाना बाजार से शेरसिंह के पास खाली प्लॉट से पूर्व की ओर धर्मीचन्द खटोड के मकान तक । खटोड से पूर्व में गुमानमल पोखरना होते हुए उत्तर की ओर महावीर जी के प्लाट तक । महावीर जी के प्लाट से गुमानमल जी कर्नावट के मकान तक । गुमानमल जी कर्नावट के मकान से नोरतमल नाबेडा के पास खाली भूखण्ड तक । खाली भूखण्ड से दक्षिण की ओर अग्रसेन भवन होते हुए तरुण रेस्टोरेन्ट तक । तरुण रेस्टोरेन्ट से गट्यानी की दुकान तक । गट्यानी की दुकान से उत्तर में कमला फैक्ट्री गेट पर मनमन्दिर की दुकान तक दुकान से पश्चिम की ओर पारस जी बडौला की दुकान तक । बडौला की दुकान से शेरसिंह जी के मकान तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुये ।
19.	19	सब्जी मण्डी चौराहे पर कोठारी ब्रदर्स की दुकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर कालका माता के मन्दिर तक । मन्दिर से पूर्व की ओर टांक भवन, धन्ना लाल छाजेड के मकान से होते हुए शिव मन्दिर के चौराहे पर काशीराम जागेटिया हाल कुन्दन ज्वैलर्स की दुकान तक । काशीराम जागेटिया हाल कुन्दन ज्वैलर्स की दुकान से पूर्व की ओर काशलीवाल भवन तक । काशलीवाल भवन से उत्तर की ओर वोल्गा स्टोर तक । वोल्गा स्टोर से कोठारी ब्रदर्स की दुकान तक एवं इसके बीच का हिस्सा ।
20.	20	मजदूर कोपरेटिव की दुकान के नुक्कड से पूर्व में जी.सी. धम्माणी के मकान तक । जी.सी. धम्माणी के मकान से उत्तर की ओर बालाजी मन्दिर के पीछे प्रकाशचन्द संचेती के मकान तक । संचेती के मकान से रोड क्रॉस कर अब्बाणी धर्मशाला से उत्तर की ओर निर्मल एन्टरप्राइजेज तक । निर्मल एन्टरप्राइजेज के पश्चिम जैन श्वेताम्बर मन्दिर तक । श्वेताम्बर मन्दिर के दक्षिण की ओर भंवरसिंह जी कसीदा वाले की दुकान पूर्व में पामेचा के मकान तक । पामेचा के मकान के दक्षिण की ओर घेवरजी बडौला के मकान से होते हुए दक्षिण की ओर अब्बाणी जैन धर्मशाला के दक्षिणी कोने तक । धर्मशाला के कोने से रोड क्रॉस कर पश्चिम की ओर दामोदर सोनी के मकान से हरिकिशन बनजारा के मकान तक । बनजारा के मकान से दक्षिण में मजदूर कोपरेटिव की दुकान के नुक्कड तक व बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।

21.	21	मिल रोड पर मजदूर कॉलोनी में बालमुकन्द के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम में जगदीश शर्मा के मकान तक । जगदीश शर्मा के मकान से होते हुये मुनिम कॉलोनी के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक । शंकर लाल शर्मा के मकान तक । शंकर लाल शर्मा के मकान से पश्चिम की ओर ओसवाल भवन होते हुये महेश स्कूल के उतरी पश्चिमी कोने के पास श्रवण जी नागौरी के मकान तक । श्रवण जी नागौरी के मकान से उतर की ओर मण्डी की दीवार के सहारे सहारे बाबूलाल जी नाहर के मकान तक । बाबूलाल नाहर के मकान से पूर्व की ओर शांति लाल जी सुराणा के मकान होते हुये सडक क्रॉस करते हुये बालिका स्कूल होते हुये ऋषि मण्डी चौराहे पर नाकोडा ब्रदर्स की दुकान तक । नाकोडा ब्रदर्स की दुकान से पूर्व की ओर मणाक जी पोखरणा के मकान तक । पोखरणा के मकान से मजदूर कॉलोनी में बालमुकन्द के मकान तक एवं इसके बीच का हिस्सा शामिल करते हुये ।
22.	22	चन्दा कॉलोनी में अफजल के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर चन्दा कॉलोनी, मदीना कॉलोनी को शामिल करते हुये विजय श्रमिक सोसायटी कॉलोनी के पूर्वी दक्षिणी कोने तक । कॉलोनी के दक्षिणी पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर मदीना कॉलोनी के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक । मदीना कॉलोनी के पश्चिमी दक्षिणी कोने से मदीना कॉलोनी शामिल करते हुये जिनेश कुमार के मकान होते हुये देवी लाल श्रीश्री माल के मकान तक । देवी लाल श्रीश्री माल के मकान से अफजल के मकान तक के बीच का हिस्सा ।
23.	23	बालाजी मन्दिर के पास ब्रम्हाभवन से प्रारम्भ होकर पूरब में सुगनचन्द तातेड के मकान से होते हुये रेल्वे फाटक के पास फकरुद्दीन व कैलाश कचौरा की दुकान से होते हुये दक्षिण में रेल्वे लाईन के सहारे सहारे खारी नदी तक । खारी नदी से पश्चिम की ओर रहमान के खेत तक । रहमान के खेत से उतर की ओर महावीर कॉलोनी, संचेती कॉलोनी, विजय कॉटन मिल को शामिल करते हुये संचेती कॉलोनी के उतरी पश्चिमी कोने तक । संचेती कॉलोनी से पूर्व की ओर मसूदा एगो तक । मसूदा एगो से उतर की ओर ब्रम्हाभवन तक ।
24.	24	रेल्वे फाटक के पास बंशीलाल गोयल के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण में धानका बस्ती होते हुए खारी नदी तक । खारी नदी सडक के पूरब में देवाजी गुर्जर के बगीचे से होते हुए उतर में रिलाइन्स पेट्रोल पम्प नटराज टॉकीज मदरसा होते मस्जिद तक । मस्जिद से पूर्व में मनिहारी की दुकान तक । मनिहारी की दुकान से रोड क्रॉस कर उतर की ओर जगदीश जीनगर के मकान तक । जगदीश जीनगर के मकान से गुडडी पत्नी गोमा कंजर व पश्चिम में मनमत सिंह के मकान तक । मनमत सिंह के मकान से दक्षिण की ओर जायका होटल होते हुये बंशीलाल गोयल के मकान तक एवं इसके बीच का सम्पूर्ण हिस्सा ।

25.	25	नई बस्ती में रज्जाक मास्टर कानिया वाले के मकान से प्रारम्भ होकर उतर में सरदार खान के मकान तक । सरदार खान के मकान से पूर्व में नुर खां का खाली प्लॉट होते हुए रज्जाक के मकान तक । रज्जाक के मकान से दक्षिण पूर्व में नाथु खां के मकान होते हुये पूर्व में हीरा रेगर के मकान तक । हीरा रेगर के मकान से दक्षिण में भंवर भील के मकान तक । भंवर भील के मकान से दक्षिण पश्चिम जोरावर सिंह के मकान से होते हुए उतर की ओर नारू खां के मकान तक । नारू खां के मकान से पश्चिम की ओर पप्पू मेवाती के मकान तक । पप्पू मेवाती के मकान से उतर में मोहन के कुएँ व मदरसे को शामिल करते हुए रज्जाक जी कानियां वाले के मकान तक एवं इसके बीच का सम्पूर्ण हिस्सा ।
26.	26	केकडी रोड पर रामगोपाल जी वैद्य के मकान के पास खटका जी के मकान से प्रारंभ होकर दौलतसिंह के मकान को शामिल करते हुये गुड्डू कब्बाडी की दुकान होते हुये नगर तिराहे तक । नगर तिराहे से दक्षिण की ओर हुरडा रोड तक हुरडा रोड से खाली खेतों को छोड़ते हुए मुन्नी बाई के प्लॉट तक । मुन्नी बाई के प्लॉट से पश्चिम में छगन जी धानका होते हुए शफी मोहम्मद के मकान से रोड क्रॉस करते हुए महादेव सरगरा के मकान तक । सरगरा के मकान से नारू चाचा के मकान को शामिल करते हुए फारूक मोहम्मद के मकान तक । मोहम्मद के मकान से उतर की ओर हुसैन के मकान तक हुसैन के मकान से स्कूल की दिवार के सहारे सहारे रामगोपाल जी वैद्य के मकान तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुये ।
27.	27	बजरंग स्पीनर्स के दक्षिणी पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर शिव मंदिर होते हुए राधाकशिन सोनी के मकान तक । सोनी के मकान से उतर में जाफर कबाडी के नोहरे तक । नोहरे से उतर की ओर संगम वाटिका से गुडडी कंजर के नोहरे तक । नोहरे से पूर्व की ओर रमेश मोटवानी के मकान तक । मोटवानी के मकान से दक्षिण में संगम वाटिका के उतरी-पूर्वी कोते तक । कोने से रोड क्रॉस कर पूर्व की ओर उस्मान जी के मकान तक । उस्मान जी के मकान से पूर्व की ओर रघुनाथ जी धोबी के मकान तक । रघुनाथ जी धोबी के मकान से दक्षिण की ओर भंवरलाल दमामी व रामकशिन सेन के मकान तक । सेन के मकान से पूर्व में बजरंग स्पीनर्स की उतरी दीवार को शामिल करते हुए दक्षिण पूर्वी कोने तक व इसके बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
28.	28	चौसला रोड पर हंसराज कंजर के मकान से पूर्व में घीसालाल दमामी के मकान से होते हुए उमराव अली के मकान तक । अली के मकान से दक्षिण में इकबाल नीलगर व असलम के मकान होते हुए मोहन जी धोबी के मकान तक । मोहन जी धोबी के मकान के पश्चिम की ओर अजीमुदीन के मकान तक । अजीमुदीन के मकान से उतर की ओर हंसराज कंजर के मकान तक व बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
29.	29	जाहिदा के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर ठाकुर जी के मन्दिर को शामिल करते हुए चौसला मिडिल स्कूल तक । स्कूल से रोड क्रॉस कर शखिरानी मोड होते हुए एनीकट तक । एनीकट से वाटर वर्क्स क्वार्टर होते हुए गौतम जी जामोला वालों के खेत से नगर रोड तिराहे तक । तिराहे से साध्वी जी की कुटिया को शामिल करते हुए बजरंग स्पिनर्स दक्षिणी पूर्वी कोने तक । कोने से बजरंग स्पिनर्स से श्याम नगर के मकानों को शामिल करते हुए धोबी के मकान से पूर्व की ओर खाली प्लॉट तक । खाली प्लॉट से रामप्रसाद कलाल से होते हुए शनि महाराज के मन्दिर से होते हुए जाहिदा के मकान तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।

30.	30	तारो का खेडा में पालिका पार्क से प्रारम्भ होकर गेन्दा लाल मरम्मत के खेत होते हुये पूर्व में मांगी लाल भांबी के मकान तक । मांगी लाल भांबी के मकान से रोड क्रॉस कर पूर्व में किशोर सोनी के मकान से उतर में इन्द्रदेव सोलंकी के पास खाली प्लॉट व शिखरानी रोड तक । शिखरानी रोड के पूर्व में चौसला स्कूल रोड के पश्चिम में व्यास जी के खेत होते हुये दक्षिण में जगदीश जी वैष्णव की दुकान होते हुये रघुनाथ तेली के मकान तक । रघुनाथ तेली के मकान से दक्षिण में रामपाल तेली के मकान से लाल सिंह के मकान तक । लाल सिंह के मकान से पश्चिम में गणेश मंदिर, चौसला टंकी होते हुये गेन्दा लाल मरम्मत के खेत के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक । दक्षिणी पश्चिमी कोने से पालिका पार्क तक एवं इसके बीच का हिस्सा ।
31.	31	तारो का खेडा में जगदीश जी मरम्मत के मकान से प्रारंभ होकर उतर में पानी की टंकी से होते हुये शिखरानी रोड के मोड तक । शिखरानी रोड के मोड से दक्षिणी-पूर्व की ओर सडक के सहारे-सहारे कैलाश जी हरिजन के मकान तक । कैलाश हरिजन के मकान से दक्षिण में चांदमल के खाली प्लॉट तक । खाली प्लॉट से पश्चिम की ओर जगदीश जी मरम्मत के मकान के पास खाली प्लॉट होते हुये जगदीश जी मरम्मत के मकान तक व इसके बीच का हिस्सा ।
32.	32	तारो का खेडा से पालिका पार्क के सामने प्यारेलाल बैरवा के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व में हरिश ब्रेकरी होते हुए उतर में रहीसा के मकान तक । रहीसा के मकान से उतर में देवीलाल जी सरगरा के मकान से होते हुए लालचन्द काठेड के मकान तक । काठेड के मकान से पश्चिम की ओर रामचन्द्र सेन के नोहरे तक । नोहरे से दक्षिण में ग्यारसी लाल माली के मकान को शामिल करते हुए प्यारेलाल के मकान तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुये ।
33.	33	रेल्वे क्रॉसिंग के उतर में रेल्वे क्वार्टरो को सम्मिलित करते हुए रोड क्रॉस कर सलीम विडीयो वाले के मकान तक । सलीम विडीयो के मकान से पूर्व में पुलिस चौकी के दक्षिण-पूर्वी कोने तक । दक्षिण-पूर्वी कोने से उतर में पालिका पार्क के पास पन्ना जी खूंटीयां वाले के मकान से होते हुए रोड क्रॉस कर नन्द किशोर बैरवा के मकान से होते हुए पालिका की दुकानो तक । पालिका की दुकानो से पश्चिम में मदन लाल पुरोहित के मकान तक । मदन लाल पुरोहित के मकान से दक्षिण में शान्ति गेस्ट हाउस होते हुए सीताराम गोयल के मकान तक । सीताराम गोयल के मकान से पश्चिम में रेल्वे लाईन के पूर्व में स्थित पुराने रेल्वे क्वार्टरो को सम्मिलित करते हुए सलीम विडीयो के मकान तक व बीच का हिस्सा शामिल करते हुए ।
34.	34	सुभाषनगर में गोपाल सेन के नोहरे से प्रारम्भ होकर पूर्व में कमल शर्मा के मकान तक । कमल शर्मा के मकान से उतर में सत्यनारायण शर्मा के मकान तक । सत्यनारायण के मकान से उतर पूर्व की ओर खाली भूखण्ड तक । खाली भूखण्ड से लालचन्द जी काठेड के मकान तक । लालचन्द जी काठेड के मकान से पश्चिम की ओर रामचन्द्र सेन के नोहरे के सामने रोड क्रॉस कर रामचन्द्र सेन के मकान के उतर में गोपाल बाडी कब्रिस्तान सडक तक । कब्रिस्तान सडक के पश्चिम की ओर कब्रिस्तान के सामने खाली प्लॉट तक । खाली प्लॉट के दक्षिण में काशीलाल शर्मा के मकान से होते हुए समस्त नये रेल्वे क्वार्टरो को शामिल करते हुए गोपाल सेन के नोहरे तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुये ।



35.	35	तारो का खेडा में चैनसिंह के मकान से उतर की ओर मिडिल स्कूल शामिल करते हुए उतर में एनीकट तक । एनीकट से पश्चिम में मसूदा नाले के सहारे-सहारे होते हुए रेल्वे पुलिया तक । रेल्वे पुलिया से कब्रिस्तान को सम्मिलित करते हुए कब्रिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक । दक्षिणी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर रामचन्द्र माली के मकान तक । रामचन्द्र माली के मकान से दक्षिण में हनुमान सेन के मकान को शामिल करते हुए आनन्द सिंह के मकान तक । आनन्द सिंह के मकान से पूर्व की ओर चैनसिंह के मकान तक एवं बीच का हिस्सा शामिल करते हुये ।
-----	----	---

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका बिजयनगर (अजमेर)

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।